

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक 20.01.2023

थाना खुटार पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी

अंतर्राज्यीय शराब तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा, 04 शराब तस्कर गिरफ्तार

करीब 50 लाख की अरुणाचल प्रदेश मार्का की 490 पेटी अंग्रेजी शराब, नकली क्यूआर कोड ट्रक कन्टेनर, कार नगदी बरामद।

श्रीमान ए.डी.जी. बरेली जोन बरेली, श्री पी सी मीना तथा श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली, श्री डॉ० राकेश सिंह के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री एवं निष्कर्षण के विरुद्ध अभियान के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर, श्री एस. आनन्द के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री संजीव कुमार वाजपेयी व क्षेत्राधिकारी पुवायां श्री पंकज पंत के निकट पर्यवेक्षण में थाना खुटार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली।

दिनांक 20.01.2023 की रात्रि 01.45 बजे थाना खुटार पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गस्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर बिजौरा बिजुरिया मोड से एक ट्रक कन्टेनर नं० HP36E8245 व एक कार मराजो नं० AS01ED3294 से कुल 490 पेटियां अरुणाचल प्रदेश मार्का IMPERIAL STYLE BLUNDER WHISKY बरामद की गयी एवं चार अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। मौके से कुल 490 शराब पेटियां अरुणाचल प्रदेश मार्का जिसमें 1380 बोतल ,6000अद्धे, 6000 पच्चे imperial style blander whiskey अरुणाचल प्रदेश मार्का, 55 क्यू आर कोड नकली तथा जामातलाशी से 6120 रुपये बरामद की गयी। शराब तस्करी में प्रयुक्त कन्टेनर व कार महिन्द्रा मराजो को अन्तर्गत धारा 207 एम.वी.एक्ट में सीज किया गया। इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु०अ०स० 51/23 धारा 63/72 आब० अधि० व 420/467/468/471भा०द०वि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ के दौरान शराब बिक्री व खरीद के स्रोतों आदि की जानकारी कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. चरनजीत सिंह पुत्र स्व.मखन सिंह निवासी दसमेश नगर थाना गंगियाल जिला जम्मू हिमाचल प्रदेश दूसरा पता 668/A मूलापुर ओमेक्स अपार्टमेंट थाना मूलापुर जिला मोहाली पंजाब तथा तीसरा पता नि० धोरामारा मुकलपथ थाना जलुकबाटी जिला गुवाहटी असम
- 2.तौकीर हसन जैदी पुत्र इबने हसन जैदी नि० मो० आदर्शनगर मकान नं० DIC IInd floor लार्ड कृष्णा रोड आदर्श नगर नई दिल्ली मूल पता महमदपुर सरैया थाना पिहानी जिला हरदोई
- 3.जोखद सिंह पुत्र करम सिंह नि० खडौला पिंड थाना राजपुरा जिला पटियाला पंजाब
- 4.फखरुद्दीन पुत्र हसन मोहम्मद नि० कंसाली थाना नगीना जिला नूह मेवात हरियाणा (कन्टेनर का चालक)

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद कन्टेनर no.HP36E8245
2. एक अदद कार महिन्द्रा मराजो AS01ED3294
3. 490 शराब पेटिया जिसमें 1380 बोतल ,6000अद्धे, 6000 पच्चे imperial style blander whiskey अरुणाचल प्रदेश मार्का (अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये)
4. 55 नकली क्यू आर कोड
5. जामातलाशी से 6120 रुपये बरामद।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगणों से सघन पूछताछ की गयी तो बताया कि हम चारों लोग शराब चंडीगढ़ से लेकर आते हैं तथा नकली क्यू आर. कोड लगाकर उत्तर प्रदेश में अच्छे दामों पर बेच देते हैं जिससे हमें अच्छा हम लोगों को अच्छा लाभ होता है। बिक्री से जो धनराशि मिलती है हम सभी लोग आपस में बांट लेते हैं। आज भी हम लोग शराब बिक्री हेतु लेकर आ रहे थे कि आपके द्वारा पकड़ लिया गया।

पंजीकृत अभियोग

1-मु0अ0स0 51/23 धारा 63/72 आब0 अधि0 तथा 420/467/468/471भा0द0वि0 थाना खुटार

गिरफ्तार करने वाले टीम का विवरण

- 1.थानाध्यक्ष श्री ओमप्रकाश सिंह थाना खुटार जिला शाहजहांपुर
- 2.निरीक्षक गुरुप्रसाद गुप्ता आबकारी विभाग क्षेत्र पुवाया शाह0पुर
- 3.उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह थाना खुटार जिला शाहजहांपुर
- 4 हे0का0 492 यशवीर सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर।
5. का0 1893 पुष्पेन्द्र कुमार थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर
- 6.का0 2070 मोनू कुमार थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर
- 7.का0 1302 देवेन्द्र कुमार थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर
- 8.का0 2547 अंकित तोमर थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर
- 9.का0 1853 अजीत कुमार थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर
- 10.का0 मनीष कुमार आबकारी विभाग क्षेत्र पुवाया शाह0पुर
- 11.हे0का0 शरद बनौधा आबकारी विभाग क्षेत्र पुवाया शाह0पुर